



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1417]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2006/अग्राहायण 6, 1928

No. 1417]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2006/AGRAHAYANA 6, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 117/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2020(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 5 सितम्बर, 2006, का.आ. 1430(अ) दिनांक 5 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 1, 4, 6 और 7 तथा कॉलम (2) और (3) में दी गई उनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाए।

[फा. सं. 437/10/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 117/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section

5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 96/2006-CUSTOMS (N.T.) dated the 5th September, 2006, S.O. 1430(E), dated the 5th September, 2006, namely :—

In the table to the said notification, serial numbers 1, 4, 6 and 7 and the entries relating thereto under columns (2) and (3) shall be omitted.

[F.No. 437/10/2006-Cus-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 118/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2021(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई जोनल यूनिट चौथा तल, होटल वाल्डोर्फ, 16, आर्थर बन्दर रोड कोलाबा, मुंबई द्वारा दिनांक 4 मई, 2006 की फा.सं. डी. आर आई/बी जेड यू/जी/आई एन वी-03/2005-06 के तहत जारी मै. रजत फार्माकेम लिमिटेड, रजत एन्कलेव, 102-103/ए, विंग-ए, गायत्री दर्शन, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कान्दीवली (ईस्ट), मुंबई-400101 और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, तृत्तिकोरिन की (i) सीमा शुल्क आयुक्त (पत्तन-निर्यात), चेन्नई, और (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (पत्तन), कोलकाता के रूप में कार्य

करने हेतु नियुक्त करता है और उन्हें पुष्ट अथवा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यभार के निष्पादन हेतु प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. 437/37/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 118/2006-CUSTOMS (N.T.)

**S.O. 2021(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Tuticorin and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed, to act as,—

(i) the Commissioner of Customs (Port-Export), Chennai; and

(ii) the Commissioner of Customs (Port), Kolkata,

for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Rajat Pharmachem Limited, Rajat Enclave, 102-103/A, Wing A, Gayatri Darshan, Thakur Complex, Kandivali (East), Mumbai-400101 and others, issued vide F. No. DRI/BZU/G/Inv-03/2005-06, dated the 4th May, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, 4th Floor, Hotel Waldorf, 16, Arthur Bunder Road, Colaba, Mumbai.

[F.No. 437/37/2006-Cus-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 119/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

**का.आ. 2022(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, मुम्बई की नियुक्ति करता है और उन्हें सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), नया सीमा शुल्क हाऊस, बल्लार्ड इस्टेट, मुम्बई और सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, कोलकाता को दी गई शक्तियों का उपयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करता है ताकि वे अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली क्षेत्रीय यूनिट, बी-4, 6ठा तल, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली द्वारा 31 मार्च, 2006 की फा. सं. डी. आर आई/23/14/2005/डी जेड यू-भाग/1334 से 1353

के जरिए मैसर्स कम्यूनिकेशन ट्रेड लिंक्स, ए-15, मानक विहार, दिल्ली तथा अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस संबंधी मामलों का निर्णय कर सके।

[फा. सं. 437/38/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 119/2006-CUSTOMS (N.T.)

**S.O. 2022(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, (Imports), Air Cargo Complex, Mumbai and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the Commissioner of Customs (Imports), New Customs House, Ballard Estate, Mumbai and the Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Kolkata, for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Communication Trade Links, A-15, Manak Vihar, Delhi and others, issued vide F. No. DRI/23/14/2005/DZU-P/1334 to 1353, dated the 31st March, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.

[F.No. 437/38/2006-Cus-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 120/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

**का.आ. 2023(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, क्षेत्रीय यूनिट, सांगना सोसायटी, गुरुकृपा बिल्डिंग, सन्डेर रोड, सूरत द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2005 की फा.सं. डीआरआई/एसआरयू/आई एन बी-9/2003-पी टी सनसाइन के तहत जारी मैसर्स सनसाइन ओवरसीज (100% निर्यातमुखी यूनिट) प्लॉट सं. 439, जीआईडीसी, काबिलपुर, नवसारी, गुजरात और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त दमण को सीमा शुल्क आयुक्त, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद के पद पर नियुक्त करता है और उन्हें उस पद के लिए पुष्ट अथवा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में और ड्यूटियों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 437/40/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2006

**No. 120/2006-CUSTOMS (N.T.)**

**S.O. 2023(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Central Excise and Customs, Daman and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed, on the Commissioner of Customs, Custom House, Navrangpura, Ahmedabad, for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Sunshine Overseas (100% EOU), Plot No. 439, GIDC, Kabilpore, Navsari, Gujarat and others, issued vide F. No. DRI/SRU/INV-9/2003/Pt-Sunshine, dated the 31st March, 2005 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Sangna Society, Gurukrupa Building, Rander Road, Surat.

[F. No. 437/40/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

**सं. 121/2006-सीमा शुल्क ( गै.टै. )**

**का.आ. 2024( अ ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, 7वां तल, ड्रम शेप बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, आई.पी. भवन, नई दिल्ली-110002 द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2006 की डीआरआई फा. सं. 50 डी/22/2006-सी-1 के तहत जारी मैसर्स जे पी होटल्स लिमिटेड, जेपी वसन्त कोन्टीनैटल वसन्त विहार, नई दिल्ली और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाउस, न्हावा शेवा को सीमा शुल्क आयुक्त, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करता है और उन्हें पुष्ट अथवा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने और इयूटियों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. 437/41/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2006

**No. 121/2006-CUSTOMS (N.T.)**

**S.O. 2024(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section

5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Imports), Jawahar Custom House, Nhava Sheva and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed, to act as the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Jaypee Hotels Limited, Jaypee Vasant Continental, Vasant Vihar, New Delhi and others, issued vide DRI F. No. 50D/22/2006-C-1, dated the 22nd August, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 7th Floor, Drum Shape Building, I.P. Estate, I.P. Bhawan, New Delhi-110002.

[F. No. 437/41/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

**सं. 122/2006-सीमा शुल्क ( गै.टै. )**

**का.आ. 2025( अ ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4, छठा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2006 की फा. सं. 23/87/2005-डी जेड यू के तहत जारी मैसर्स जी.बी. मॉरीसन ट्रेवलस प्रा. लि., 42, कम्प्यूनिटी सेन्टर, जमरुदपुर, नई दिल्ली और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को (i) सीमा शुल्क आयुक्त, जवाहर कस्टम हाउस, पो.आ. उरान, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र; और (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवर्धन), न्यू कस्टम हाउस, बलार्ड एस्टेट, मुंबई के पद पर नियुक्त करता है और उन्हें प्रदान की गई अथवा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यभार के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. 437/42/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2006

**No. 122/2006-CUSTOMS (N.T.)**

**S.O. 2025(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on :

- (i) the Commissioner of Customs, Jawahar Custom House, P.O. Uran, District Raigarh, Maharashtra; and
- (ii) the Commissioner of Customs (Export Promotion), New Customs House, Ballard Estate, Mumbai

for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. G.B. Morrison Travels Private Limited, 42, Community Centre, Zamrudpur, New Delhi and others, issued *vide* F. No. 23/87/2005-DZU, dated the 31st August, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

[F.No. 437/42/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 123/2006-सीमा शुल्क ( गै.टै. )

**का.आ. 2026( अ ).—**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4, छठा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2006 की फा. सं. 23/102/2005-डी जेड यू के तहत जारी मैसर्स ब्राइट स्टार होटल्स प्रा. लि., बी-3ए, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-I, नई दिल्ली और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, (आयात और सामान्य), न्यू कैस्टम हाउस, नई दिल्ली को सीमा शुल्क आयुक्त, इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त करता है और उन्हें सीमा शुल्क के ऐसे आयुक्त को प्रदान की गई अथवा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यभार के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करता है।

[ फा. सं. 437/43/2006-सीमा शुल्क-IV ]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 123/2006-CUSTOMS (N.T.)

**S.O. 2026(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Import and General), Customs House New Delhi to act as the Commissioner of Customs Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi and authorises him to exercise the powers and discharge the duties

conferred or imposed on such Commissioner of Customs, for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Bright Star Hotels Private Limited, B-3, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi and others, issued *vide* F. No. 23/102/2005-DZU, dated the 30th August, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

[F.No. 437/43/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 124/2006-सीमा शुल्क ( गै.टै. )

**का.आ. 2027( अ ).—**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, डी-ब्लॉक, आई. पी. भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2006 की डी आर आई फा.सं. 50 डी/52/2006-सी आई के तहत जारी मैसर्स हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड, प्रेस्टीज ब्ल्यूचिप, ब्लॉक नं. 1, सं. 9, होसुर रोड, बंगलौर और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई कस्टम हाउस (समुद्री कार्गो), चेन्नई को संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त न्यू कस्टम हाउस, बलार्ड एस्टेट, मुंबई के पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त करता है और उन्हें पुष्ट अथवा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यभार के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[ फा. सं. 437/44/2006-सीमा शुल्क-IV ]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 124/2006-CUSTOMS (N.T.)

**S.O. 2027(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Chennai Custom House (Sea Cargo), Chennai to act as the Joint Commissioner of Customs, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on such officer, for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Hutchison Essar South Limited, Prestige Bluechip, Block No.1, No. 9, Hosur Road, Bangalore and others, issued *vide* DRI F.No. 50D/52/2006-CI, dated 5th September, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, D-Block, I.P. Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

[F.No. 437/44/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 125/2006-सीमा शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 2028(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, छठा तल, बी-4, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2006 की फा. सं. 23/16/2005-डी जेड यू के तहत जारी मैसर्स एम. के. एक्जिम इंडिया लिमिटेड, 1, आनन्द चैम्बर्स, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, इंदिरा बाजार, जयपुर-01, जो ई-3, रिको औद्योगिक क्षेत्र, सीमापुरा, जयपुर पर कार्यरत है और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, (निर्यात), जवाहर कस्टम हाउस, न्हावा शेवा को (i) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, बलार्ड एस्टेट, मुंबई; और (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, जयपुर के पद पर नियुक्त करते हैं और उन्हें प्रदान की गई अथवा सौंपी गई शक्तियों को प्रयोग करने और कार्यभार के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. 437/45/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 125/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2028(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Export), Jawahar Custom House, Nhava Sheva and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on —

- (i) the Commissioner of Customs, (Export), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai; and
- (ii) the Commissioner of Customs, Jaipur

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. M.K. Exim India Limited, 1, Anand Chambers, Baba Harish Chandra Marg, Indira Bazar, Jaipur-01, works at E-3, RICCO Industrial Area, Sitapura, Jaipur and others, issued vide F. No. 23/16/2005-DZU, dated the 18th July, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, 6th Floor, B-4, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

[F.No. 437/45/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

3736 21/06-2

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 126/2006-सीमा शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 2029(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, बी-4, छठा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2006 की फा. सं. 23/94/2005-डी जेड यू के तहत जारी मैसर्स ऑंकार इन्टरनेशनल प्रा. लिमिटेड, एच-32, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली और अन्य से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को सीमा शुल्क आयुक्त, जवाहर कस्टम हाउस, पो.आ. उरान, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के पद पर नियुक्त करते हैं और उन्हें प्रदान की गई अथवा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यभार के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. 437/46/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 126/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2029(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed, on the Commissioner of Customs, Jawahar Custom House, P.O. Uran, District Raigarh, Maharashtra, for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Onkar International Private Limited, H-32, Connaught Circus, New Delhi and others, issued vide F. No. 23/94/2005-DZU, dated the 30th August, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, B-4, 6th Floor, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

[F.No. 437/46/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सं. 127/2006-सीमा शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 2030(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त, इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली की नियुक्ति करता है और उन्हें निम्नलिखित के रूप में कार्य करने हेतु प्रदत्त अथवा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करता है—

- (i) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई; और
- (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), न्हावा शेवा

ताकि मैसर्स पैरेडाईज इंटरनेशनल, 22 गोपाल मार्केट, द्वितीय तल, भागीरथ पैलेस, दिल्ली-6, तथा अन्य को डी आर आई एफ सं. 338/XIV/24/2006/36, दिनांक 9 अक्टूबर, 2006 के जरिए अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, 7वां तल, आई. पी. भवन, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों का वे न्यायनिर्णयन कर सकें।

[फा. सं. 437/54/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

No. 127/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2030(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed, to act as the Commissioner of Customs (Import), Mumbai and Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Paradise International, 22, Gopal Market, 2nd Floor, Bhagirath Palace, Delhi-6 and others, issued, vide, DRI F. No. 338/XIV/24/2006/36, dated the 9th October, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 7th Floor, I.P. Bhavan, I.P. Estate, New Delhi-110002.

[F. No. 437/54/2006-Cus.-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.